

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय

क्षेत्रीय केंद्र जोधपुर

प्रेस विज्ञप्ति

विद्यार्थी डिजिटल माध्यम से अध्ययन सामग्री का प्रयोग करे :- डॉ आचार्य

दिनांक :- 28/03/2020

इग्नू क्षेत्रीय केंद्र जोधपुर के क्षेत्रीय निदेशक डॉ अजय वर्धन आचार्य ने बताया कि कोरोना वाइरस महा संकट के कारण इग्नू क्षेत्रीय केंद्र जोधपुर के द्वारा विद्यार्थियों कि सहायता करने के लिए डिजिटल सेवाओं के माध्यम से सत्रीय कार्य एवं अध्ययन सामग्री प्राप्त की जा सकती है। जनवरी 2020 सत्र में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों से आग्रह है कि वे इग्नू के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध अध्ययन सामग्री को मोबाइल ऐप के प्ले स्टोर के माध्यम से IGNOU e-content से डाउनलोड करके सत्रीय कार्य को बना सकते है।

सत्रीय कार्य जमा करने की अन्तिम तिथि 30 अप्रैल 2020 तक बढ़ा दी गई है। साथ ही साथ जून 2020 के परीक्षा फार्म भरने की अंतिम तिथि भी 30 अप्रैल 2020 तक बढ़ा दी गई गई है। सत्र जनवरी 2020 के विद्यार्थियों ने जिन्होंने certificate course में प्रवेश लिया है उन्हें 30 अप्रैल 2020 तक परीक्षा फार्म भरने के साथ साथ सत्रीय कार्य को पूरा करना है। अतः IGNOU की वेबसाइट पर जा कर e-gyankosh अथवा मोबाइल में ऐप के माध्यम से IGNOU e-content app से अध्ययन सामग्री डाउनलोड करके सत्रीय कार्य बना सकते है।

जनवरी -2020 सत्र में मास्टर डिग्री/बैचलर डिग्री/पी.जी. डिप्लोमा/डिप्लोमा कार्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की अध्ययन सामग्री डिजिटल प्लेटफॉर्म पर IGNOU की वेबसाइट पर जा कर e-gyankosh अथवा मोबाइल में ऐप के माध्यम से IGNOU e-content app पर अध्ययन सामग्री उपलब्ध है। यह विद्यार्थी भी सत्रीय कार्य को बना सकते है (सत्रीय कार्य के प्रश्न पत्र इग्नू की वेबसाइट पर उपलब्ध है।) इन विद्यार्थियों के लिए सत्रीय कार्य जमा करवाने एवं ऑनलाइन परीक्षा फार्म भरने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2020 होगी। तथा इन विद्यार्थियों की परीक्षा दिसंबर -2020 में आयोजित की जाएगी।

इग्नू क्षेत्रीय केंद्र जोधपुर के अधीन आने वाले सभी समन्वयकों एवं कार्यक्रम प्रभारियों से आग्रह है कि वे विद्यार्थियों को अधिक से अधिक डिजिटल सेवाओं के माध्यम से अध्ययन सामग्री के लिए प्रोत्साहित करे।

महत्वपूर्ण सूचना विद्यार्थियों के लिए एवं विद्यार्थी सहायता सेवाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सुदृढ करने हेतु :-

सत्रीय कार्य जमा करवाने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2020 तक बढ़ा दी गई है ।

जून 2020 सत्र के लिए परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2020 तक बढ़ा दी गई है ।

पीएच.डी. कार्यक्रमों एवं ओपनमेट (एम.बी.ए. कार्यक्रम की प्रवेश परीक्षा) में आवेदन करने की अन्तिम तिथि 30 अप्रैल 2020 तक बढ़ा दी गई है ।

विद्यार्थियों से अनुरोध है कि वह अध्ययन सामग्री हेतु निम्न लिखित डिजिटल प्लेटफॉर्म का प्रयोग करे:-

1. IGNOU e-content Mobile App
2. IGNOU की वेबसाइट www.ignou.ac.in पर जाकर e-gyankosh के माध्यम से।

भवदीय,

डॉ. अजय वर्धन आचार्य

क्षेत्रीय निदेशक

इग्नू क्षेत्रीय केंद्र जोधपुर।

मोबाइल - 9887008922

E-mail- avacharya@ignou.ac.in

rcjodhpur@ignou.ac.in